

आपरेशन पाताल के तहत दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूट की सामग्री नगदी व अवैध तमंचा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा जनपद में अवैध शस्त्रों के प्रयोग के रोकथाम हेतु "आपरेशन पाताल" के साथ साथ अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व जनपद में हो रही लूट/छिनैती की घटना के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्र०नि० थाना रामगढ़ताल के कुशल नेतृत्व में थाना रामगढ़ताल की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.05.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर डोमवा ढाला, थाना रामगढ़ताल गोरखपुर से समय करीब 06.10 बजे दो शातिर लुटेरे मय लूट के मोबाइल, नगदी सहित अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर बाद गिरफ्तारी अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विजय कुमार पुत्र रामू निवासी गायघाट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. विकास निषाद पुत्र रविन्द्र निषाद निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण –

- 1- अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामू निवासी गायघाट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के पास से दो अदद मोबाइल Vivo V23 Pro व Redmi Note 8 व रूपये 1500/-रु० बरामद।
- 2- अभियुक्त विकास निषाद पुत्र रविन्द्र निषाद निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद मोबाइल Redmi व रूपये 1600/- बरामद।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामू निवासी गायघाट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

1. मु०अ०सं०- 151/2022 धारा 392/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु०अ०सं०- 207/2022 धारा 406/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. मु०अ०सं०- 209/2022 धारा 392/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. मु०अ०सं०- 210/2022 धारा 403/411/414 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

अभियुक्त विकास निषाद पुत्र रविन्द्र निषाद निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

1. मु०अ०सं०- 151/2022 धारा 392/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु०अ०सं०- 207/2022 धारा 406/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. मु०अ०सं०- 209/2022 धारा 392/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. मु०अ०सं०- 210/2022 धारा 403/411/414 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. मु०अ०सं०- 211/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार व बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० सुशील कुमार शुक्ला, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
2. व०उ०नि० शेष कुमार शर्मा, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
3. उ०नि० पुरुषोत्तम आनन्द सिंह, प्रभारी चौकी आजाद नगर, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
4. उ०नि० विशाल कुमार उपाध्याय, प्रभारी चौकी आजाद चौक, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
5. हे०का० कृष्ण कुमार सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
6. का० बबलू यादव, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
7. का० देवेन्द्र सिंह यादव, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
8. का० प्रवीण कुमार, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
9. का० राम भरत यादव, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर